

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 436]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 अगस्त 2010—भाद्र 4, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्र.12-एफ-1-14-2010-अठारह-3-वार्ड आरक्षण-2010.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नवगठित नगर पंचायत धामनोद, जिला रतलाम के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अनु. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	01	9-डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
3	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	04	11-पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 12-शहीद भगतसिंह वार्ड 13-देवी अहिल्या वार्ड 15-श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	02	12-शहीद भगतसिंह वार्ड 13-देवी अहिल्या वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	03	02-महात्मा गांधी वार्ड 06-जवाहरलाल नेहरू वार्ड 07-सरदार वल्लभ भाई पटेल
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	02	02-महात्मा गांधी वार्ड 07-सरदार वल्लभ भाई पटेल
7	अनारक्षित वार्ड	07	01-रविन्द्रनाथ टेगोर वार्ड 03-महाराणा प्रताप वार्ड 04-नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 05-स्वामी विवेकानन्द वार्ड 08-आनन्दीलाल बोहरा वार्ड 10-एकलव्य वार्ड 14-लालबहादुर शास्त्री वार्ड
8	महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	04	01-रविन्द्रनाथ टेगोर वार्ड 04-नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 08-आनन्दीलाल बोहरा वार्ड 10-एकलव्य वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, सचिव.